

## NVMe Storage Augmentation by 150 TB Usable Capacity

SL. NO.	DESCRIPTION	Qty
1.	Supply and installation usable Storage Space of 150 TB using 7.86 TB Enterprise NVMe Drives along with required no of disk expansion units for existing Acceleron C100 unified Storage System (SNo: AL230026 & AL230027) with <b>co-terminus warranty</b> - As per Specifications, Terms & conditions enclosed	1 Lot
2.	Post warranty on-site comprehensive annual maintenance contract (CAMC) charges for the NVMe usable 150TB along with expansion boxes as described in the above S.No: 1 for 4 <sup>th</sup> Year	1 Year
3.	Post warranty on-site comprehensive annual maintenance contract (CAMC) charges for the NVMe usable 150TB along with expansion boxes as described in the above S.No: 1 for 5 <sup>th</sup> Year	1 Year

### Technical Specifications & Terms & Conditions

SNo	Technical Specifications and Terms	Compliance Yes/No
1	Supply, installation & Configuration of disks and disk expansion units for existing Acceleron C100 unified Storage System (SI.No: AL230026 & AL230027) with usable capacity of 150 TB using 7.86 TB Enterprise NVMe Drives along with required no of disk expansion units	
2	Required no of expansion units to be supplied to accommodate the disks and necessary inter connect cables to be provided.	
3	Onsite supply, installation and hardware/ software integration of the upgrade with existing unified storage system Acceleron C100 Unified Storage at NRSC Shadnagar Campus.	
4	Only well-established and reputed system integrators to quote with authorization letter from M/s Acceleron Labs Limited specific to this enquiry.	
5	Comprehensive onsite warranty and technical support, co-terminus with existing Acceleron C100 Storage system warranty.	
6	24 X 7 technical support, back to back support from OEM with 6-hours response 4-hours parts replacement/resolution time.	
7	<p>Failure to maintain the stipulated response/ resolution times and an uptime of 99% every quarter will result in levy of penalty charges as follows:</p> <p>Down-time Compensation During Co-terminus warranty period: Down time compensation will be levied @ 0.5% of Supply value per day from the vendor subject to a maximum of 10% of Supply value, in case the contractor fails to attend the service within 6 hours from the time of intimation by NRSC and 4-hours for part replacement/resolution.</p> <p>Down-time Compensation Clause for CAMC: Down-time Compensation will be levied @ 0.5% of the each quarterly maintenance charges per day subject to a maximum of 10% of the quarterly bills, in case the contractor fails to attend the service within 24 hours from the time of intimation by NRSC. In case of major breakdown, service engineer should attempt service immediately within 6 hours from the time of intimation by NRSC and 4-hours for part replacement/resolution.</p>	
8	The warranty shall include disks, batteries, etc. and supply & installation of updates and upgrades of the software including firmware, OS, storage resource management software, etc.	
9	The technical support from vendor includes reconfigurations, performance	

	optimizations, guidance on usage and software aspects, hardware/software problem diagnosis & resolution, technical help in planning for augmentations, etc with site visits as required.	
10	The vendor must have relevant OEM trained certified engineers available to provide warranty support and Post Warranty Support.	
11	All necessary/ required cables, connectors, rack mount kits, software etc. must be supplied	
12	List of deliverables to be provided – BoM Specifying the Part nos and Quantities should be clearly specified.	
13	The existing free rack space to be used for installation of the quoted items.	
14	Any other additional components required for installation and integration but not specifically mentioned above must also be quoted and included in the offer	
15	Failed disks must be replaced with new ones at no extra charges and the faulty disks will not be returned to the vendor as per NRSC rules. No disk retention charges would be paid.	
16	The technical support/maintenance includes Bids that fail to provide clear, complete and unambiguous information/ compliance are liable to be rejected without further correspondence	
17	During the warranty period, the faulty parts including disks and batteries must be replaced with new ones carrying warranty up to the system's warranty end-date	
18	Any vendor wishes to visit the existing storage system for this augmentation- if required.	
19	Compliance statement for all the above items to be provided by the vendor	

<b>SNo</b>	<b>Delivery &amp; installation and Other technical terms &amp; conditions</b>	<b>Compliance Yes/No</b>
1	The delivery and installation site is NRSC Shadnagar campus	
2	Delays in delivery/ installation will attract levy of liquidated damages as per NRSC rules.	
3	The vendor has to conform to the requirements of security deposit, performance bank guarantee and other terms as specified in the general NRSC tender terms	
4	Installation services to be provided by the OEM	
5	The vendor/ system integrator (SI) and OEM should undertake full responsibility of delivery, installation & integration of the system	
6	The respective OEM engineers must actively participate in the installation along with the system integrator, for which necessary back-to-back arrangements are to be ensured by the SI	
7	At the time of installation of the system, if it is found that some additional hardware/ software items are required to complete the configuration, which were not included in the vendor's original list of deliverables, then the vendor is required to supply such items to ensure the completeness at no extra cost to NRSC. Vendor should ensure completeness of the list of deliverables in the offer to avoid such discovery during installation	
8	The SI must have necessary back-to-back arrangement with the OEM to ensure competent and timely support	
9	All supplied software & firmware licenses must be perpetual and upgrades & updates must be provided during the entire warranty period	
10	Technical literature in support of the offered solution/ products must be enclosed	
11	In the technical bid, the list of deliverables/ Bill of Material (BoM) with Part Nos. as applicable must be clearly specified.	
12	Any item given as complied but not listed in BoM is liable to be treated as non-compliant	
13	Near obsolete and out-dated technology-based products must not be quoted/ offered as a part of the solution.	
14	The vendor must have skilled, OEM trained and experienced manpower with technical competence on the quoted products to provide comprehensive warranty with onsite visits as required	
15	The system integrator must have back-to-back support arrangements with the OEMs for installation, warranty, problem diagnosis, parts replacement and all technical support	
16	Supplied items should work on 220V, 50 Hz, AC power supply	
17	All power sockets/fixtures at the installation site are Indian type	

<b>SNO</b>	<b>Post-warranty maintenance for next 2 years after co-terminus warranty expiry</b>	<b>Compliance Yes/No</b>
1	The vendor must mandatorily quote for the post-warranty on-site comprehensive annual maintenance contract (CAMC) charges for the next 2 years after co-terminus warranty expiry.	
2	The CAMC terms are same as those for warranty support and also include all software/ firmware updates, upgrades & technical support.	
3	The 2-year post-warranty CAMC (after the initial co-terminus warranty expires) charges will be paid at the end of each quarter on satisfactory services duly certified by end-user.	

**वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें**  
**Commercial Terms and Conditions**

क्र.सं S.no.	विवरण Description	अनुपालन )हां/नहीं/ टिप्पणी, यदि कोई हो Compliance (Yes/No) Remarks, if any
1	कर और अन्य लागत, यदि कोई हो: )कृपया मूल्य बोली में शामिल कर दर कोट करें( <b>Taxes and other costs, if any:</b> (Please quote the rate of tax included in price bid)	
2	<b>सुपुर्दगी शर्तें:</b> एनआरएससी भू-केंद्र, शादनगर के लिए <b>Delivery Term:</b> FOR NRSC ES-Shadnagar.	
3	<b>ओईएम प्राधिकरण प्रमाणपत्र:</b> निविदा के हिस्से के रूप में निविदा विशिष्ट ओईएम प्राधिकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें सभी संविदात्मक दायित्वों की अवधि शामिल होगी। <b>OEM Authorization Certificate:</b> Tender specific OEM Authorization Certificate to be submitted as part of tender, covering the duration of all the contractual obligations.	
4	<b>सुपुर्दगी एवं स्थापना अवधि Delivery &amp; Installation Period</b> a. जेम (GeM) में पीओ दाखिल होने की तारीख से सुपुर्दगी <b>within 10 weeks</b> पूरी की जाएगी Delivery shall be completed <b>within 10 weeks</b> from the date of placement of PO in GEM. b. <b>within 02 weeks</b> में स्थापना एवं चालू किया जाएगा Installation & commissioning shall be completed <b>within 02 weeks</b> from the date of intimation from NRSC.	
5	<b>भुगतान अवधि:</b> <b>Payment term for Supply &amp; Installation:</b> 90% payment of the Supply value will be made within 10 days from the date of receipt, installation and acceptance of the items by NRSC and generation of CRAC on GEM Portal and balance 10% payment will be made after completion of co-terminus warranty.  <b>Payment term for CAMC:</b> Quarterly payment will be made on pro-rata basis after successful completion of the work and submission of Invoice for the respective quarter and duly certified by Engineer-In-Charge and approved by next higher authority after each service.	
6	<b>वारंटी:</b> एनआरएससी द्वारा वस्तुओं की स्थापना और स्वीकृति की तारीख से __ वारंटी प्रमाणपत्र विधिवत मुद्रांकित और हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाएगा। <b>Warranty:</b> <b>Co-terminus warranty shall be provided</b> from the date of installation & acceptance of the items by NRSC. Warranty certificate duly stamped and signed shall be submitted. <b>CAMC:</b> Post warranty on-site comprehensive annual maintenance contract (CAMC) shall be provided for the next 2 years after <b>co-terminus warranty expiry</b> .	
7	<b>क्षतिकरण:</b> सुपुर्दगी और स्थापना इस आदेश के मूल में है। आपूर्तिकर्ता क्रय आदेश के कुल प्रयोजन का निष्पादित करेगा, अर्थात्, क्रय आदेश में दर्शाए गए सुपुर्दगी कार्यक्रम के तहत आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग कार्य का पूरा किया जाए। यदि आपूर्तिकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति और स्थापना की विलंबित अवधि के लिए ऑर्डर मूल्य के अधिकतम 10% के अधीन, प्रति सप्ताह 0.5% या उसके भाग पर क्षतिकरण हर्जाना लगाया जाएगा। <b>Liquidated Damages:</b> Since delivery & installation is the essence of this order, the supplier shall execute the total scope of purchase order, i.e., supply, installation & commissioning /total scope of work within the delivery schedule indicated in the Purchase Order. In case, if the supplier fails to do so, Liquidated Damages shall be levied @ 0.5% per week or part thereof subject to a maximum of 10% of the order value for the delayed period of supply & installation.  <b>Down-time Compensation During Co-terminus warranty period:</b> Down time compensation will be levied @ 0.5% of Supply value per day from the vendor subject to a maximum of 10% of Supply value, in case the contractor fails to attend the service within 6 hours from the time of intimation by NRSC and 4-hours for part replacement/resolution.  <b>Down-time Compensation Clause for CAMC:</b> Down-time Compensation will be levied @ 0.5% of the each quarterly maintenance charges per day subject to a maximum of 10% of the quarterly bills, in case the contractor fails to attend the service within 24 hours from the time of intimation by NRSC. In case of major breakdown, service engineer should attempt service immediately within 6 hours from the time of intimation by NRSC and 4-hours for part replacement/resolution.	
8	<b>बैंक गारंटी Bank Guarantee:</b> <b>SD cum PBG/e-PBG (For Supply &amp; Installation):</b> Bank Guarantee for SD cum PBG/e-PBG for <b>3% of the Supply value</b> shall be submitted within <b>15 days of receipt of order valid</b> till the completion of Delivery, acceptance + co-terminus warranty period, i.e., <b>29 months</b> on Rs.100/- non-judicial stamp paper from a Nationalized / Scheduled Bank. This shall be returned by NRSC on execution of the purchase order satisfactorily & completion of standard warranty obligations. If the	

	<p>supplier fails to execute the supply &amp; standard warranty obligations, then this BG shall be forfeited without any further reference.</p> <p><b>NOTE: This BG will be released only after receipt of the BG for CAMC (within 15 days of commencement of CAMC)</b></p> <p><b>SD for CAMC:</b> BG in the prescribed format shall be provided within 15 days of commencement of CAMC for 3% of total value of CAMC of PO valid till completion of CAMC period plus two months, i.e. <b>26 months</b> from a Nationalized / Scheduled Bank. This shall be returned by NRSC after satisfactory completion of CAMC period upon request received from the Supplier. If the supplier fails to execute the CAMC obligations, then this BG shall be forfeited without any further reference.</p>	
9	<p><b>फर्मों को बोली लगाने से प्रतिबंधित करने पर दिशानिर्देश:</b> विक्रेता नियम संख्या 151 और GFR )सामान्य वित्तीय नियम( की धारा 175 (अखंडता संहिता) के अनुरूप व्यय विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.1/20/2018-पीपीडी दिनांक 02.11.2021 के माध्यम से फर्मों को प्रतिबंधित करने संबंधी दिशानिर्देशों को नोट करें। बोलियां जमा करने पर, यह माना जाएगा कि बोलीदाताओं ने निष्कासन दिशानिर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।</p> <p><b>Guidelines on Debarment of firms from Bidding:</b> Vendors may note the Guidelines on Debarment of Firms vide O.M No. F.1/20/2018-PPD dated 02.11.2021 issued by Department of Expenditure in line with rule no.151 &amp; 175 (Code of Integrity) of GFR (General Financial Rules). On submission of bids, it is presumed that bidders have read and understood the Debarment guidelines.</p>	
10	<p><b>एमएसई:</b> कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या आप MSE हैं। यदि हां, तो कृपया अपने प्रस्ताव के साथ दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें। विक्रेता कृपया ध्यान दें कि MSEs को सुरक्षा जमा, प्रेषित करने से छूट नहीं है</p> <p><b>MSE:</b> Please specify whether you are a MSE. If so, please furnish the documentary evidence along with your offer. Vendors may please note that MSEs are not exempted from the submission of Security deposit.</p>	
11	<p><b>एसएसडी/एचडीडी क्लॉज:</b> वारंटी अवधि के दौरान खराब होने पर कोई भी हार्ड डिस्क/एसएसडी को एनआरएससी नियमों के अनुसार वापस नहीं किया जाएगा और उसे एनआरएससी को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मुफ्त में बदलना होगा।</p> <p><b>SSD/HDD Clause:</b> Any Hard Disk/SSD failed during warranty period will not be returned as per NRSC rules and same has to be replaced free of cost without any extra charge to NRSC.</p>	
12	<p>PFMS में पंजीकरण करने में हमें सुविधा प्रदान करने के लिए कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें। भुगतान करने के लिए यह अनिवार्य है:</p> <p>Please provide the following details in order to facilitate us to register in PFMS. This is mandatory for making payment:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) बैंक खाता संख्या Bank Account Number</li> <li>2) आईएफएससी कोड IFSC Code</li> <li>3) पैन नंबर PAN No.</li> <li>4) जीएसटी पंजीकरण संख्या और जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति GST Registration No. and copy of GST registration certificate</li> <li>5) मोबाइल नंबर Mobile Nos.1)_____ 2)_____</li> <li>6) ईमेल आईडी Email ID _____</li> </ol>	
13	<p><b>सामग्री बैंक गारंटी:</b> चूंकि सामग्री एनआरएससी/इसरो की संपत्ति है, वारंटी अवधि के दौरान स्थापित परिसर के बाहर सामग्री या दोषपूर्ण भाग के परिवहन के मामले में, उपकरण के दोषपूर्ण भाग के लिए उपयुक्त प्रतिस्थापन या सामग्री बैंक गारंटी, दोषपूर्ण वस्तु/उपकरण का मूल्य प्रदान किया जाएगा ताकि हम उस वस्तु या दोषपूर्ण भागों को मरम्मत के लिए विक्रेता को सौंप सकें। सामग्री बैंक गारंटी उस प्रारूप के अनुसार प्रदान की जाएगी जिसे क्रय आदेश के साथ भेजा जाएगा।</p> <p><b>Material Bank Guarantee:</b> As the material is a property of NRSC/ISRO, in case of transporting the material or a defective part outside the installed premises during the Warranty/CAMC period, a suitable replacement for the defective part of the equipment or Material Bank Guarantee towards the value of the defective item/ equipment shall be provided to enable us to hand over the item or defective parts to the vendor for repairs. Material Bank Guarantee shall be provided as per the format which shall be sent along with the purchase order.</p>	
14	<p><b>मध्यस्थता खंड:</b> संविदा की व्याख्या और आवेदन से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी विवाद, मतभेद या दावे की स्थिति में, ऐसे विवाद या मतभेद या दावे का निपटारा सौहार्दपूर्ण ढंग से किया जाएगा। संबंधित पक्षों के अच्छे व्यवहार के आपसी परामर्श और उनके आपसी हितों को पहचानकर दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक समाधान तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यदि ऐसे विवाद/विवादों के अस्तित्व की लिखित सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसा समाधान संभव नहीं है तो, समय-समय पर संशोधित मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार पार्टियों द्वारा आपसी सहमति से अनसुलझे विवाद/विवादों या मतभेदों या दावों को नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा। मध्यस्थता बेंगलुरु में मध्यस्थता और सुलह केंद्र – बेंगलुरु (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) में इसके नियमों और विनियमों के अनुसार की जाएगी। मध्यस्थता के लिए खर्च समान रूप से या मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार साझा किया जाएगा। मध्यस्थ का विचारित और लिखित निर्णय पार्टियों के बीच अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता के लिए लागू भाषा केवल "अंग्रेजी" होगी। संविदा के तहत कार्य ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, मध्यस्थ के निर्णय के अनुसार अंतिम समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी रखा जाएगा, जब तक कि अन्यथा विभाग द्वारा लिखित रूप में निर्देशित न किया जाए या जब तक मामला ऐसा न हो कि कार्य नहीं किया जा सके। संभवतः तब तक जारी रहेगा जब तक मध्यस्थ का निर्णय (चाहे अंतिम या अंतरिम) प्राप्त न हो जाए।</p> <p><b>Arbitration Clause:</b> In the event of any dispute/s, difference/s or claim/s arising out of or relating to the interpretation and</p>	

	<p>application of the Contract, such dispute/s or difference/s or claim/s shall be settled amicably by mutual consultations of the good Offices of the respective Parties and recognizing their mutual interests attempt to reach a solution satisfactory to both the parties. If such a resolution is not possible, within 30 days from the date of receipt of written notice of the existence of such dispute/s, then the unresolved dispute/s or difference/s or claim/s shall be referred to the Sole Arbitrator appointed by the Parties by mutual consent in accordance with the rules and procedures of Arbitration and Conciliation Act 1996 as amended from time to time. The arbitration shall be conducted in Bengaluru in the Arbitration and Conciliation Centre – Bengaluru (Domestic and International) as per its rules and regulations. The expenses for the Arbitration shall be shared equally or as may be determined by the Arbitrator. The considered and written decision of the Arbitrator shall be final and binding between the Parties. The applicable language for Arbitration shall be “English” only. Work under the Contract shall be continued by the CONTRACTOR during the pendency of arbitration proceedings, without prejudice to a final adjustment in accordance with the decision of the Arbitrator unless otherwise directed in writing by the DEPARTMENT or unless the matter is such that the works cannot be possibly continued until the decision (whether final or interim) of the Arbitrator is obtained.</p> <p><b>सीपीएसई के साथ निविदा के लिए मध्यस्थता खंड:</b> केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और सरकारी विभागों/संगठनों के बीच वाणिज्यिक संविदा के प्रावधानों की व्याख्या और आवेदन से संबंधित किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में, ऐसे विवाद या मतभेद इसके अलावा (कराधान मामलों से संबंधित) को का.ज्ञा संख्या 4(1)/2013-डीपीई (जीएम/एफटीएस-1835 में उल्लिखित “CPSEs विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र) AMRCD(” के माध्यम से किसी भी पक्ष द्वारा समाधान के लिए उठाया जाएगा। भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) द्वारा दिनांक 22-05-2018 और का.ज्ञा. संख्या डीपीई-जीएम-05/0003/2019-एफटीएस-10937 दिनांक 20.02.2020 जारी किया गया।</p> <p><b>Arbitration Clause for Contracts with CPSEs:</b> In the event of any dispute or difference relating to the interpretation and application of the provisions of commercial contract(s) between Central Public Sector Enterprises (CPSEs) and Government Departments/ Organizations, such disputes or differences (other than those related to taxation matters) shall be taken up by either party for resolution through the “Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD)” as mentioned in OM No. 4(1)/2013-DPE (GM)/FTS-1835 dated 22-05-2018 and OM No. DPE-GM-05/0003/2019-FTS-10937 dated 20.02.2020 issued by the Department of Public Enterprises(DPE) under the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.</p>	
15	<p><b>लागू कानून खंड:</b> फिलहाल लागू इस संविदा को भारत के कानून नियंत्रित करेंगे। संविदा से उत्पन्न होने वाले किसी भी कानूनी मामले या विवाद पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार केवल तेलंगाना के न्यायालयों को होगा।</p> <p><b>Applicable Law Clause:</b> The laws of India shall govern this contract for the time being in force. The Courts of Telangana only shall have jurisdiction to be with and decide any legal matters or disputes what so ever arising out of the contract.</p>	
16	<p><b>अप्रत्याशित घटना की स्थिति:</b> ऐसी स्थिति में जब अप्रत्याशित घटना की स्थिति, जैसे महामारी, बाढ़, युद्ध, सरकारी नीतियों, प्राकृतिक आपदाओं आदि के कारण संविदा के निष्पादन में देरी होती है या बाधा आती है, तो जिस पक्ष के संविदा का निष्पादन प्रभावित होता है। अप्रत्याशित घटना की स्थिति किसी भी मामले में निष्पादन प्रभावित होने की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अप्रत्याशित घटना की स्थिति के अस्तित्व के बारे में दूसरे पक्ष को तुरंत सूचित करेगी। ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष संविदा की सुपुर्दगी अवधि को बढ़ाने या संविदा को कम समय में बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं।</p> <p><b>Force Majeure Condition:</b> In the event that the performance of the contract is delayed or hampered due to Force Majeure Condition, such as Pandemic, Floods, War, Government Policies, Natural Calamities etc., the party whose performance of the contract is affected due to Force Majeure Condition shall notify the other party promptly about the existence of force majeure condition in any case within a period of sixty days from the date the performance is affected. Both the parties may in such a situation shall take necessary steps either for extension of the delivery period of the contract or short closure of the contract.</p>	
17	<p><b>जोखिम खरीद खंड:</b> यदि विक्रेता संविदा संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो केंद्रों/इकाइयों के पास संबंधित विक्रेता के जोखिम और खर्च पर संविदा/खरीद को पूरा करने का विकल्प होगा। जहां भी जोखिम खरीद खंड लागू होता है, विक्रेता खरीद आदेश/संविदा के मूल्य के मुकाबले केंद्र/यूनिट द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। क्रेता के पास अपनी प्रक्रिया का पालन करके शेष कार्य को किसी अन्य विक्रेता के माध्यम से निष्पादित कराने का अधिकार सुरक्षित है।</p> <p><b>Risk Purchase Clause:</b> In case the vendor fail to fulfill the contractual obligations, the Centres /Units shall have an option of completing the contract/ procurement at the risk and expense of the vendor concerned. Wherever the risk purchase clause is enforced, the vendor is liable to pay the additional amount if any spent by the Centre/Unit as against the value of the Purchase Order / Contract. The purchaser reserves the right to get the balance work executed through another vendor by following their own procedure.</p>	
18	<p><b>गोपनीयता:</b> ऑर्डर देने की स्थिति में, संबंधित विक्रेता नोट करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आपूर्ति किए गए उपकरणों की तकनीकी विशेषताएं और तकनीकी विशेषताएं गोपनीय रहेंगी और तीसरे पक्ष को इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।</p> <p><b>Confidentiality:</b> In the event of placement of order, the respective vendor shall note and ensure that Technical Specifications and technical features of the equipment's supplied shall be confidential and shall not be disclosed to third party.</p>	

19	<p><b>गोपनीयता:</b> क्रेता द्वारा प्रदान की गई और संविदा का हिस्सा बनने वाली तकनीकी जानकारी, चित्र, विनिर्देश और अन्य संबंधित दस्तावेज क्रेता की संपत्ति हैं और संविदा के निष्पादन को छोड़कर, किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग या खुलासा नहीं किया जाएगा। पेटेंट प्रदान करने और डिजाइनों के पंजीकरण की स्थिति में अधिकारों सहित सभी अधिकार क्रेता के पक्ष में सुरक्षित हैं। क्रेता द्वारा प्रदान की गई तकनीकी जानकारी, चित्र, विनिर्देश, रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों को किसी अन्य रूप में या अन्यथा पूरी तरह से कॉपी, ट्रांसक्रिप्ट, ट्रेस या पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और/या डुप्लिकेट, संशोधित, खुलासा और/या किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं किया जाएगा। न ही इस संविदा के निष्पादन के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर क्रेता की लिखित सहमति के बिना किसी भी अन्य रूप में दुरुपयोग किया गया। ये तकनीकी जानकारी, चित्र, विनिर्देश और अन्य संबंधित दस्तावेज जो मूल रूप से क्रेता द्वारा प्रदान किए गए थे, उन्हें सहमत उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने के तुरंत बाद सभी अनुमोदित प्रतियों और डुप्लिकेट, यदि कोई हो, के साथ क्रेता को वापस कर दिया जाएगा, और साथ में भेजा जाएगा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित ठेकेदार का एक प्रमाण पत्र इस उल्लेख के साथ कि ऐसी तकनीकी जानकारी, चित्र आदि क्रेता को वापस कर दिए गए हैं और ठेकेदार ने उसकी कोई प्रति/कॉपी अपने पास नहीं रखी है।</p> <p><b>Secrecy:</b> The technical information, drawings, specifications and other related documents provided by the Purchaser and forming part of the Contract are the property of Purchaser and shall not be used or disclosed for any other purpose, except for execution of the Contract. All rights, including rights in the event of grant of patent and registration of designs are reserved in favor of the Purchaser. The technical information, drawings, specifications, records and other documents provided by the Purchaser shall not be copied, transcribed, traced or reproduced in any other form or otherwise in whole and/ or duplicated, modified, divulged and/or disclosed to a third party nor misused in any other form whatsoever without Purchaser's consent in writing except to the extent required for the execution of this Contract. These technical information, drawings, specifications and other related documents which were originally provided by the Purchaser shall be returned to the Purchaser with all approved copies and duplicates, if any, immediately after they have been used for the agreed purpose, and shall be accompanied with a certificate of the Contractor signed by an authorized signatory that such technical information, drawings, etc. have been returned to the Purchaser and that the Contractor has not retained any copy/copies thereof with him.</p>	
20	<p>बोलीदाता सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 और सार्वजनिक क्रय )मेक इन इंडिया को प्राथमिकता( आदेश 2017 के लिए सार्वजनिक क्रय नीति के समवर्ती आवेदन के लिए व्यय विभाग द्वारा जारी का.ज्ञा. नंबर एफ 1/4/2021-पीपीडी दिनांक 18/05/2023 का भी संदर्भ ले सकते हैं।</p> <p>Bidders may also refer OM No. F1/4/2021-PPD dated 18/05/2023 issued by Department of Expenditure for concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017</p>	
21	<p>प्रस्तावों पर विचार के लिए संलग्न प्रारूप में हस्ताक्षरित <b>बोली-सुरक्षा घोषणा</b> प्रस्तुत करना अनिवार्य है। It is mandatory to submit signed <b>Bid-security declaration</b> in the enclosed format for consideration of offers.</p>	
22	<p>एनआरएससी बिना कोई कारण बताए बोली/निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। NRSC reserves the right to reject the bid/tender without assigning any reason thereof.</p>	
23	<p><b>भूमि सीमा घोषणा:</b> निविदा में भाग लेने वाले विक्रेताओं को भूमि सीमा खंड के लिए जेम (GeM) सामान्य नियम और शर्तों में नियमों और शर्तों का पालन करना होगा। <b>उत्पत्ति के देश की घोषणा:</b> विक्रेताओं को प्रस्तावित वस्तुओं की उत्पत्ति के देश की घोषणा करनी चाहिए। <b>Land Border Declaration:</b> Vendors who participate in the tender shall comply with the terms and conditions in GeM General Terms and Conditions for land border clause. <b>Country of Origin Declaration:</b> Vendors should declare the country of Origin of goods offered.</p>	

दिनांक सहित हस्ताक्षर Signature with date:  
नाम Name:  
पदनाम Designation:  
आधिकारिक सील Official Seal:

**बोली सुरक्षा घोषणा प्रपत्र Bid Security Declaration Form**

**(कंपनी के लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी हुई है**

On Company Letterhead signed and stamped by the authorized signatory)

दिनांक Date: \_\_\_\_\_

टेंडर नं Tender No. \_\_\_\_\_

सेवा में/To

प्रधान, क्रय एवं भण्डार **Head, Purchase & Stores**

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र **National Remote Sensing Centre**

हैदराबाद **Hyderabad.**

मैं/हम अधोहस्ताक्षरी घोषणा करते हैं कि:

मैं/हम समझते हैं कि, आपकी शर्तों के अनुसार, बोलियों को बोली सुरक्षा घोषणा द्वारा समर्थित होना चाहिए।

मैं/हम स्वीकार करते हैं कि यदि मैं/हम बोली शर्तों के तहत किसी भी दायित्व का उल्लंघन करते हैं तो अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आपके साथ किसी भी संविदा के लिए बोली लगाने से मुझे/हमें अयोग्य ठहराया जा सकता है, क्योंकि मैं/हम

I/We. The undersigned, declare that:

I/We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid Securing Declaration.

I/We accept that I/We may be disqualified from bidding for any contract with you **for a period of one year** from the date of notification if I am

I/We are in a breach of any obligation under the bid conditions, because I/We

a) ने मेरी/हमारी निविदा को वापस ले लिया है/संशोधित/संशोधित कर दिया है, उसे कमजोर कर दिया है या उसका अवमूल्यन कर दिया है, बोली के प्रपत्र में निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि के दौरान बोली; या  
have withdrawn/modified/amended, impairs or derogates from the tender, my/our Bid during the period of bid validity specified in the form of Bid; or

b) बोली वैधता की अवधि के दौरान क्रेता द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति के बारे में सूचित किया गया है  
having been notified of the acceptance of our Bid by the purchaser during the period of bid validity

(i) यदि आवश्यक हो तो संविदा को निष्पादित करने में विफल या पुनः उपयोग करें, या jii) बोलीदाताओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने में विफल रहें या इनकार करें।

(i) fail or refuse to execute the contract, if required, or (ii) fail or refuse to furnish the Performance Security, in accordance with the Instructions to Bidders.

मैं/हम समझते हैं कि यदि मैं/हम सफल बोलीदाता नहीं हैं, तो ji) सफल बोलीदाता के नाम की आपकी अधिसूचना प्राप्त होने पर यह बोली सुरक्षा घोषणा मान्य नहीं रहेगी; या jii) मेरी/हमारी बोली की वैधता समाप्त होने के तीस दिन बाद

I/We understand this Bid Securing Declaration shall cease to be valid if I am/we are not the successful Bidder, upon the earlier of (i) the receipt of your notification of the name of the successful Bidder; or (ii) thirty days after the expiration of the validity of my/our Bid.

हस्ताक्षरित: )उस व्यक्ति के हस्ताक्षर लिखें जिसका नाम और पद दर्शाया गया है(

**Signed:** (insert signature of person whose name and capacity are shown)

की क्षमता में )बोली सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की कानूनी पद डालें(

**in the capacity of** (insert legal capacity of person signing the Bid Securing Declaration)

नाम: )बोली सुरक्षा घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम डालें(

की ओर से बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत )बोलीदाता का पूरा नाम डालें(

दिनांक \_\_\_\_\_ दिन \_\_\_\_\_ (हस्ताक्षर करने की तारीख डालें)

**Name:** (insert complete name of person signing the Bid Securing Declaration)

Duly authorized to sign the bid for an on behalf of (insert complete name of Bidder)

Dated on \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ (insert date of signing)

कॉर्पोरेट सील )जहां उपयुक्त हो(

**Corporate Seal** (where appropriate)

(नोट: संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली सुरक्षा घोषणा बोली प्रस्तुत करने वाले संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के नाम पर होनी चाहिए(

(**Note:** In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be in the name of all partners to the Joint venture that submits the bid)